

Iran President likely to attend BRICS Summit in Delhi

ASHOKE RAJ ■ New Delhi

Iranian President's proposed India visit comes amid heightened regional tensions and Tehran's call for a greater diplomatic role for New Delhi. Iranian President Masoud Pezeshkian is scheduled to visit New Delhi in September to attend the 18th BRICS Summit, according to Iranian sources, bringing Tehran's leadership to India at a time of heightened tensions in West Asia.

The BRICS summit is scheduled to be held in New Delhi on September 12-13 under India's 2026 chairmanship. The meeting is expected to bring together leaders of the expanded grouping against the backdrop of growing geopolitical and economic uncertainty.

Pezeshkian's proposed visit is likely to add a significant geopolitical dimension to the summit and provide an opportunity for India and Iran to discuss bilateral ties, regional security, connectivity, trade and energy.

India's BRICS presidency is being guided by the theme "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability." New Delhi is also seeking to use its chairmanship to promote dialogue and cooperation among countries with differing positions on major international issues. The Iranian president's visit would come amid intensified diplomatic engagement between New Delhi and Tehran.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi was in New Delhi in May for the BRICS Foreign Ministers' Meeting, where he held discussions with External Affairs Minister S Jaishankar. The Strait of



Hormuz and the wider regional crisis were among the key issues surrounding his visit. Tehran has sought to emphasise diplomacy while maintaining its position on the ongoing confrontation involving Iran, the United States and Israel. Araghchi has said Iran is prepared to engage diplomatically under the right circumstances, while also stressing Tehran's concerns over the security arrangements surrounding the Strait of Hormuz.

Pezeshkian's presence in New Delhi could consequently provide an important opportunity for direct discussions between the Iranian leadership and the Indian government on the rapidly evolving regional situation. Prime Minister Narendra Modi and Pezeshkian last met on the sidelines of the BRICS Summit in Kazan, Russia, in October 2024. During that meeting, the two leaders reviewed bilateral relations and discussed regional developments, including the situation in West Asia. Modi also stressed the importance of de-escalation and diplomacy.

The two sides could use their next meeting to review cooperation in connectivity, trade, energy and regional security.

The Chabahar port project remains an important element of the India-Iran relationship. India views the

Iranian port as a strategic connectivity link providing access towards Afghanistan and Central Asia and as an important component of its broader regional connectivity strategy. During their 2024 meeting, Modi and Pezeshkian underlined the importance of the long-term contract relating to Chabahar and its potential to strengthen trade and economic linkages with Central Asia.

Iran's role within BRICS has also acquired greater significance since Tehran became a full member of the grouping in 2024. Iran joined Egypt, Ethiopia and the United Arab Emirates in the expansion that year, while Indonesia became a member in 2025. Iran is among the countries participating in BRICS activities under India's current chairmanship.

Pezeshkian's participation in the Delhi summit would underline Tehran's growing engagement with the expanded grouping and its efforts to strengthen ties with major emerging economies.

The waterway is a crucial artery for global energy supplies, making developments around it particularly significant for India, which relies heavily on imported energy. The security situation around the strait has remained highly sensitive amid the confrontation involving Iran, the United States and Israel.

Iran has said it remains committed to facilitating safe passage for commercial shipping under conditions acceptable to Tehran. At the same time, Iranian officials have insisted that the arrangements governing the waterway cannot simply return to the pre-conflict status quo.

In recent weeks, Tehran has also linked the reopening of the waterway to wider diplomatic and security conditions, while talks involving Oman have focused on possible arrangements for shipping lanes and regional de-escalation. For New Delhi, stability in the Gulf and uninterrupted commercial and energy flows remain major strategic interests.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

REGD. OFFICE : NATIONAL INSURANCE BLDG., 6TH FLOOR 14, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCH GATE MUMBAI -400020 Telephone No.'s:- 022-22851766-68, 022-22849865 **GHAZIABAD AREA OFFICE :** Shop No.-3, 1st Floor, Astoria Boulevard, RDC, Rajnagar, Ghaziabad -201002, 0120-4995536/9918065222 Ghaziabad nor@gicfl.co.in **DWARKA BRANCH OFFICE :** F-15 & 16, 1st floor, Manish Global Mall, Plot no 2, LSC-1, Sector 22, Dwarka, Delhi-110075 011-28050910 dwar@gicflindia.com **PITAMPURA AREA OFFICE :** Plot No. C-1,2,3, 511, 5th Floor, PP Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

Ref:-Demand notice u/s 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of the financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Sr. No.	NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWER/LOAN FILE NO./BRANCH NAME	ADDRESS OF THE MORTGAGED PROPERTY	NPA Classification Date	DATE OF ISSUE DEMAND NOTICE	OUTSTANDING DUES (As per Demand Notice) (AMOUNT IN Rs.)
1.	UP0620600000344/ DINESH KUMAR / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. U.G.-F-2, Upper Ground Floor, MIG (without roof rights), comprising two bedrooms, with a covered area of 63.66 square meters, Plot Nos. 41 & 42, situated within the boundaries of Kharsa No. 543 (part), Flora Enclave, Gargaspuram, Hapur Road, Hadbast Village Dasna, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,123,990
2.	UP0620600000963/ HANUMANT ROY DUBEY / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. SF-1 (Second Floor) (MIG) Excluding roof rights, Constructed on half of Plot No. 43 (part of Kharsa No. 22), Total covered area of 46.82 sq. meters, situated at Shatabdipuram, Village Dasna, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	02.05.2026	10.07.2026	Rs. 800,210
3.	UP0620600000676/ NAGESH KUMAR / ADITI VERMA / GHAZIABAD BRANCH	FLAT No. 409, 4th FLOOR, HAVING ITS SUPER AREA MEASURING 58.08 SQ. MTRS. OUT OF KHARSA NO. 0032, Kharsa No. 137, Situated at VILLAGE BASAI BRAHAUDINPUR, PARAGNA & TEHSIL DADR, DISTT GAUTAM BUDDH NAGAR, U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 950,482
4.	UP0620600000245/ KUBER DUTT / SWATI SHARMA / GHAZIABAD BRANCH	House No. 32, (total area of 59 square yards (i.e., 41.80 square meters) Covered area of 41.80 square meters, It is situated on and bearing Kharsa No. 3093 (Min.) in Village Shahrpur Bamheta, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad, U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,147,031
5.	UP0620600000247/ SHASHI PRAKASH SINGH / GHAZIABAD BRANCH	House No. B-33/1, Block B situated in Kharsa No. 292, Area measuring 60 square yards (50.16 square meters), Defence Empire-2, Village Tilpata, Karanwas Pargana, Dadri Tehsil, District Gautam Buddh Nagar U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,014,872
6.	DL06206000003200/ ANIL KUMAR / SABITA RAJ / GHAZIABAD BRANCH	Flat of Second Floor, Back Side, Property Bearing No.-10, Block-A, Out Of Kharsa No-56/24, Vill- Hasstai, Om Vihar Phase-V, Uttam Nagar, New Delhi-110059	29.01.2026	10.07.2026	Rs. 2,359,287
7.	UP06206000002753 / DHARMENDRA SINGH / GHAZIABAD BRANCH	House with an area of 60 square yards, Part of plot No. 33 & 34 (pertaining to Kharsa No. 3041), located at Mansarovar Colony, Village Shahrpur Bamheta, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,456,085
8.	UP06206000001879 / HARI PRAKASH / MUNNI DEVI / DULIP CHAND SHARMA / GHAZIABAD BRANCH	House No. C-12, situated in Paradise Dream City, located in Kharsa No. 621 with an area of 145 square yards (i.e., 121.23 square meters), Village Khodna Katan, Pargana and Tehsil Dadri, District Gautam Buddha Nagar U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,431,796
9.	UP06206000001184 / RAJESH / KAVITA / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. 12 (L.I.G.) (Second Floor) (Front Side) (without roof rights), having a covered area of 450 Sq. Ft. (41.805 sq. meters) Plot No. 116 within the residential colony known as Vikram Enclave Village Pasoda, Pargana Lori, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	31.03.2026	10.07.2026	Rs. 1,385,321
10.	UP06206000001440 / RAKHI RATHORE / GHAZIABAD BRANCH	Flat No.UG-2, Upper Ground Floor, Built Up on Residential Plot No. G-76, G-77, & G-78, Out of Kharsa No.1458, Ward No. 52, Situated at Residential Colony Balaji Enclave, in the Revenue Estate Village-Raispur, Pargana-Dasna, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,082,833
11.	UP06206000001485/ RATAN SARKAR / DOLI SARKAR / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. SF-1, Second Floor (MIG type, without roof rights), with a super area of 55.74 square meters, constructed on Plot No. 215, situated at Balaji Enclave Colony (Kharsa No. 1482), Hadbast Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	15.07.2026	30.07.2026	Rs. 1,420,496
12.	UP06206000002119 / ROHIT KUMAR NAGAR / RESHAN / GHAZIABAD BRANCH	residential House situated in Village Akilpur Jagir, comprising a total area of 302 square yards (i.e., 252.47 square meters) out of the aggregate area of 0.3040 hectares--distributed across three plots (Kharsa No. 208 with an area of 0.0890 hectares, Kharsa No. 209 with an area of 0.1140 hectares, and Kharsa No. 210 with an area of 0.1010 hectares) under Khata No. 47 Pargana and Tehsil Dadri, District Gautam Buddha Nagar U.P.	02.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,411,588
13.	UP06206000000791 / SANDEEP MISRA / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. 201, on 2nd Floor, Having Its Super Area Measuring 60.41 Sq. Mtrs Building Name Known As Golden Nest-IV, Vide Khata No. 00194 Out of Kharsa No. 152, Situated at Village Basai Brahudinnagar, Pargana & Tehsil Dadri, Distt. Gautam Buddh Nagar U.P.	02.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,256,717
14.	UP06206000000730 / SUBHASH KUMAR / RANJANA TARIYAL / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. SF-1, Second Floor (M.I.G. type, with roof rights), on Plot No. 15 (pertaining to Kharsa No. 1552) situated in "Keshavpuram Colony", Hadbast Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	30.05.2026	10.07.2026	Rs. 1,098,949
15.	UP06206000002359 / VIMMI RALLI / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. 303 (Third Floor), Situated in Block- Saras, Krishna City, Situated in the Kharsa No. 41, Village Chhapraula, Near NH-91, Pargana and Tehsil Dadri, District Gautam Buddha Nagar (U.P.) 201009	02.05.2026	10.07.2026	Rs. 927,578
16.	UP06206000000236 / VIPIN KUMAR JHA / GHAZIABAD BRANCH	House No. B-8 with a total area of 42.5 square yards (i.e., 35.53 square meters). The property is situated within the boundaries of Kharsa No. 569 in the village of Chipiyana Buzurg (across the railway line), Pargana and Tehsil Dadri, District Gautam Buddha Nagar U.P.	09.07.2026	30.07.2026	Rs. 1,028,765
17.	UP06206000001669/ SACHIN KUMAR SHARMA / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. SF-1, Second Floor (including roof rights), constructed in a three-story building (excluding the ground floor) situated on Plot No. C-3, Kharsa No. 1447. It has a total covered area of 48 square meters. The property is located in the residential colony of Akshay Enclave Phase-2, within the revenue limits of Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	10.07.2026	30.07.2026	Rs. 1,264,676
18.	UP06206000001272 / TUSHAR TYAGI / GHAZIABAD BRANCH	Residential Flat No. UGF-2, Upper Ground Floor (without roof rights), having a covered area of 51.00 square meters, constructed on freehold residential Plot No. J-21 (comprising parts of Kharsa Nos. 1455 and 1462), situated in Balaji Enclave, within the revenue limits of Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	10.07.2026	31.07.2026	Rs. 1,290,102
19.	UP06206000001886 / RAHUL KUMAR SHARMA / GHAZIABAD BRANCH	Flat No. FF-2, First Floor (M.I.G. type, without roof rights), with a super area of 60.46 square meters, Constructed on Plot No. K-15, Kharsa No. 1552, situated in "Keshavpuram Colony", Hadbast Village Raispur, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	11.07.2026	30.07.2026	Rs. 1,043,500
20.	UP06206000002422 / VINLISH DEVI / DANVIR SINGH RANA / GHAZIABAD BRANCH	H. No-144A, Kharsa No-3018, Colony Known as Mansarovar Park -III, Village Shahrpur Bamheta, Pargana Dasna, Tehsil & Distt. Ghaziabad U.P.	30.06.2026	17.07.2026	Rs. 1,603,915
21.	UP06206000002294 / KUMAR DHARMENDRA / GHAZIABAD BRANCH	Residential H-NO. No. 93, upper ground Floor, with a covered area of 55 square meters, situated in Kharsa No. 161 within the residential colony known as Raj Compound", Hadbast Village Shahrpur Bamheta, Pargana Dasna, Tehsil and District Ghaziabad U.P.	07.04.2026	17.07.2026	Rs. 1,720,883
22.	DL07506000001727 / TEJ PRAKASH DUBEY / PITAMPURA BRANCH	Residential Flat No. 103, on Upper Gr. Floor, Front Right-Hand Side, Without Roof Rights, bearing No. 1, comprised in Kharsa No. 99/2 & 101, situated in the Revenue Estate of Village Nawada, Colony Known as Vipin Garden Extension, Uttam Nagar, New Delhi-110059.	06.07.2026	15.07.2026	2440031/-
23.	UP07506000000902 / RAM RATAN/ SANJEEV KUMAR / PITAMPURA BRANCH	PLOT No. 94, BLOCK-B, KHASRA NO. 327, KARAN ENCLAVE, WARD NO. 1, VILLAGE- CHIPYANA BULJURG, DADR, GAUTAM BUDDH NAGAR, 203207.	16.07.2026	21.07.2026	1110410/-
24.	UP07506000001150 / GAYANTI DEVI / PITAMPURA BRANCH	FLAT NO. S-4, PLOT NO. E-25 & 26, SECOND FLOOR, SAI UPVAN, KHASRA NO. 157A, VILLAGE- YUSUPPUR CHAKSABERI, DADR, GAUTAMBUDDHANAGAR, 201009	11.07.2026	17.07.2026	655127/-
25.	UP07506000001100 / SONAL GUPTA/ DEEPAK GUPTA / PITAMPURA BRANCH	Flat No. c, second floor, without roof rights, Plot no. 69 to 72, 72A, 73, 73A, 74 to 77, Royal Tower-1, Siddharth Vihar, Out of Kharsa no. 3854, Loni, Ghaziabad 201102.	11.07.2026	15.07.2026	1371392/-
26.	DL07506000000211 / VIRENDRA KUMAR / Dwarka Branch	FLAT NO. 301, SECOND FLOOR, PLOT NO. 803, KHASRA NO. 299/201/2, VILLAGE- GHTORN, NEW DELHI 110030	13.07.2026	16.07.2026	1763065/-

1. In terms of our sanction letter, you all have been sanctioned short term loan for construction/purchase of residential project on the above referred respective properties. The respective repayment schedule is as under:-

2. To discharge their liabilities to GIC HFL Ltd. in full as stated in aforesaid column no. 4, within sixty days from the date of publication of this notice together with further interest and penal interest on balance principal outstanding till payment and/or realisation, failing which we shall be free to exercise all or any of the rights under section 13(4) of the said act, which please note.

3. You are also put on notice that in terms of sub-section 13 of the said Act, you sale not transfer by way of sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets without obtaining written consent from GIC HFL Ltd., failing which you will be liable for an offence for an offence punishable under section 29 of the said Act, please take further note hereof.

4. This notice is given under the provision to the right of GIC HFL to initiate such other actions or legal proceeding as it deems necessary under any other applicable provision of law. The undersigned is duly authorised officer of GIC HFL to issue this notice and exercise powers under section 12 of section 13 of aforesaid Act.

Place : Ghaziabad Dwarka and Pitampura
Dated : 15.08.2026

Yours Truly, For GIC Housing Finance Ltd
Sd/- Authorised Officer

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking),
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwall Road, Dehradun-248001, Corporate Identity No. UA40109P2001SGC025867/2358,
Telephone -(0135)-2763672-76, Fax-(0135)-2760289, Website: www.uktenders.gov.in

E-TENDER NOTICE (TENDER SPECIFICATION NO. CCP-II/11/2026-2027

Uttarakhand Power Corporation Ltd., Dehradun invites e-tender for Supply of following item:-

Name of item	Quantity (Nos.)	Estimate cost (₹)	Average yearly Turn Over of Preceding Three Financial Year (₹)	Earnest Money Deposit (₹)	Cost of tender document including GST (₹)	Last Date & time of online request for Tender and Submission of tender in online & Off line mode	Date of opening of tender in online & off line mode
9kV 10 KA Polymer Lightning Arrester	5000	131.511 LAKh	2.640 Crore	2.640 LAKH	11 800	07.09.2026 upto 17:00 hrs.	08.09.2026 at 15.30 hrs.

For further details, please visit the website www.uktenders.gov.in

No.: 623/EE/(CM)/UPCUA-2 Dt. 14.08.2026

Superintending Engineer
Corporate (Contract & Procurement-II)

"SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION. Use LED Bulb, Save Electricity (Toll Free No. 1912) "Pay Electricity Bill Online 24x7 from www.upcl.org". (For information on Electricity theft, informer may report to Toll free No 1800 180 4185/ Fax No. 0135-2760911)

Axis Bank Ltd

2nd Floor, Sbb Loan Centre, Sita-usha Square, Kankarbagh Main Road, Patna-800020

Possession Notice (for Immovable Property)

(as Per Appendix IV read With Rule 8(1) Of The Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Axis Bank Ltd, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrower/s/guarantor/s to repay the amount mentioned in the notice along with contractual rate of interest plus penal interest, charges, costs etc. within 60 days from the date of the said notice.

The borrower/s/guarantor/s, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s/guarantor/s, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on the date mentioned herein after.

The borrower/s/guarantor/s, in particular, and the public, in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Axis Bank Ltd., for an amount mentioned in the notice along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

The borrower's attention is invited to the provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name & Address Of Borrower / Guarantor	A) Amount Due As On Date B) Date Of Demand Notice C) Date Of Possession (Symbolic)	Description Of The Immovable Property (Secured Assets)
Mr. Birendra Kumar S/o Late Bisheshwar Prasad Sinha R/o 435Kh, Yamuna Sadan, Kaulitya Nagar, Po- Shastri Nagar, Back To Tara Tower, Patna- 800023 Mrs. Shailja Sinha W/o Mr. Birendra Kumar R/o 435Kh, Yamuna Sadan, Kaulitya Nagar, Po- Shastri Nagar, Back To Tara Tower, Patna- 800023 Mr. Birendra Kumar Prop. Of New Jamuna Optical, Bailey Road, Shikhpura, Near Vishal Mart, Patna- 800014 Mr. Birendra Kumar S/o Late Sh. Bisheshwar Prasad Sinha, Flat No- 1708, Block B-17, Eco Village- 1, Plot No-06, Sector-1, Greater Noida, Gautam Budh Nagar- Up- 201301	A) Rs. 26,44,413.34/-including Interest till 17.04.2026 (Rupees Twenty Six Lakhs Forty Four Thousand Four Hundred Thirteen and Thirty Four Paise Only) B) 17-04-2026 C) 12/08/2026	All the piece and parcel of the residential Unit No. (R0188171708/Flat # 1708) in B17 Tower in the project called Eco Village -1 situated at Plot No- Plot-08, Sector -1, Greater Noida - 201303, Gautam Budh Nagar (U.P) having Block No. B17 at 17 th Floor, Super Buildup Area - 890 Sqft.. The property belongs to Mr. Birendra Kumar and Mrs. Shailja Sinha.

Date: 15.08.2026
Place: Patna & Greater Noida
Sd/-
Authorised Officer
Axis Bank Ltd

RLF LIMITED

Regd. Office: 14 Kms, Pataudi Road, Village Jhund Sarai Veeran, Gurugram, Haryana, 122016
CIN NO.:L74999HR1979PLC032747, Phone : 011-49075251, Email : compliance@rlfhd.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE,2026

(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended
		30/06/2026	31/03/2026
		Audited	Un Audited
1	Income from Operations	3.32	8.36
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.70	(24.14)
3	Net Profit before tax for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.70	(24.14)
4	Net Profit for the period after tax and Exceptional and/or Extraordinary items	2.70	(24.14)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	881.75	(24.14)
6	Equity Shares Capital (Face value Rs.10/- Per equity share)	964.35	964.35
7	Earnings Per Share (For continuing and discontinued operations) Basic and diluted	0.03	(0.01)

Notes:
1. This extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website : www.bseindia.com. The same is also available on the company's Website www.rlfhd.com
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 14th August, 2026.
3. The Company has no subsidiary/associate/Joint Venture Company(ies).
4. The Operations of the company are considered as a single business product. Segment reporting is not applicable.

Place: New Delhi
Date :14-08-2026
Sd/-
ADITYA KHANNA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01860038

HINDUSTAN AUTO FINANCE LIMITED

CIN:L65910DL1980PLC010617
E-mail: hindaf1980@gmail.com, Website: www.hindaf.in
Regd. Off: Cabin No. DA-8, 02nd Floor, Vikas Marg, Shakarpur, New Delhi-110092

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2026

(₹ in Lakhs)

SL. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2026	Year ended 31.03.2026	Quarter ended 30.06.2025
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	—	1.32	—
2	Net Profit/(Loss) for period (before tax, exceptional and/or Extra-ordinary items)	-6.12	1.42	-6.20
3	Net Profit/(Loss) for period before tax (after exceptional and/or Extra-ordinary items)	-6.12	1.42	-6.20
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-6.12	0.90	-6.20
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-6.12	0.90	-6.20
6	Equity Share Capital	350.28	350.28	350.28
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	—	-102.05	—
8	Earnings per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)	-0.17	0.03	-0.18
1.	Basic	-0.17	0.03	-0.18
2.	Diluted	-0.17	0.03	-0.18

Notes:
(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (<https://www.hindaf.in/investor-deck/financial-statements/>)
(2) The above financial results for the quarter ended June 30, 2026 were reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 14, 2026. The Statutory Auditors have conducted limited review on these results and have issued unqualified report.

For M/s Hindustan Auto Finance Limited
Sd/-
Subhash Sapra
Managing Director
DIN:00241940

Date: 14.08.2026
Place: New Delhi



पायनियर

नई दिल्ली, शनिवार, 15 अगस्त 2026

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

दिल्ली आसपास

2

12 साल की लड़की की बस की टक्कर से मौत

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में अपने स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जा रही आठवीं कक्षा की एक छात्रा की शुकुवार को न्यू अशोक नगर इलाके में एक डीटीसी बस की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर गलत लेन में चल रही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस ने एक स्कूटर को टक्कर मारी दी जिस पर वह अपने चाचा के साथ स्कूल जा रही थी। घटना के बाद, गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस पर पथराव किया, जिससे उसकी सामने की विंडशील्ड और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्थिति को बिगड़ने से रोका और बस चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो दुर्घटना के बाद भाग गया था। लड़की की पहचान 12 वर्षीय कायना पाल के रूप में हुई है, जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए स्कूल जा रही थी। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे दल्लपुरा रोड पर हुआ। पुलिस के अनुसार, वह अपने चाचा के साथ स्कूटर पर जा रही थी जब डीटीसी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई। उसके गम्भीर पिता अमन पाल ने कहा, हमें रा छोटा भाई उसे कार्यक्रम के लिए स्कूल ले जा रहा था, तभी बस गलत तरफ से आई और उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची सड़क पर गिर गई, जिसके बाद उसका सिर बस के पहिये के नीचे आ गया। पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत पर ही मौत हो गई और उन्होंने राव पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया। बच्ची के दूसरे चाचा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लड़की की मौत पर ही मौत हो गई और उसके चाचा को चोटें आईं, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं और पुलिस को अपना बयान देने के लिए फिट हैं। उसके दादा धर्म सिंह ने कहा कि लड़की स्कूल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए घर से निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों और निवासियों ने आरोप लगाया कि टक्कर के बाद चालक मौके से भाग गया, जबकि कई यात्री बस के अंदर ही थे। दुर्घटना से स्थानीय लोग क्रोधित हो गए और कुछ लोगों ने बस पर पथराव कर दिया।

टिप्पू गिरोह के तीन शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने टिप्पू ताजपुरिया-कोशल चौधरी-गुरविंदर बाबा गिरोह के तीन कथित शूटर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दो अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और 11 कारतूस बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने शुकुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी हेमंत उर्फ मोनू (33), नयन अग्रवाल (25) और दुर्गेश राय उर्फ डेविल (22) के रूप में की है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में गिरोह के सक्रिय सदस्यों के बारे में मिली खुफिया जानकारी को लेकर 10 दिनों से अधिक समय तक निगरानी रखने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि हेमंत और अग्रवाल को एक गुप्त सूचना के बाद दो अगस्त को पश्चिम विहार के एक जिला पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि दुर्गेश को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हेमंत और अग्रवाल के पास से एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बाद में एक और पिस्तौल व तीन कारतूस बरामद किए। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, हेमंत और अग्रवाल ने खुलासा किया कि वे हथियारों और कारतूसों की खेप लेने के लिए गुरविंदर उर्फ बाबा के निर्देश पर गईं में पंजाब के जीरकपुर गए थे। गुरविंदर वर्तमान में अमेरिका में है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने गुरविंदर द्वारा साझा किए गए स्थान पर एक खेत से हथियार एकत्र किए और बाद में उन्हें दिल्ली में अपने एक सहयोगी को सौंप दिया। अधिकारी ने कहा, रवे रंगदारी वसूलने की कोशिश में गईं में चंडीगढ़ में दो सैलून में भी गए थे, लेकिन साजिश को अंजाम नहीं दे सके।

The Pioneer Classified

CHANGE OF NAME

मैं, **रामवीर सिंह यादव पुत्र श्री बुद्ध सिंह यादव** निवासी ई-118, सैक्टर-52, नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उप्र0प्र0-201301 शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम रामवीर यादव वुटिवश दर्ज हो गया है। भविष्य में मुझे रामवीर सिंह यादव के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये।

I, Rajender Singh Negi C/o Ranjeet Singh Negi, R/o B-79, JJ Colony, Near Kaali Mata Mandi, Dwarka Sector 7, South West Delhi. Hereby declare that My all legal documents my name is Rajender Singh Negi. Henceforth Rajender Singh Negi and Rajpal Singh Negi both are the same person.

I POOJA JHA W/O SH. SAHIL JHA R/O H.NO.360, POCKET D-7, SECTOR-6, ROHINI DELHI-110085 HAVE CHANGED MY NAME FROM POOJA ARUN JHA/POOJA KUMARI TO POOJA JHA FOR ALL FUTURE PURPOSES.

I, Archana Goyal, W/o Manoj Goyal, R/o Gandhi Colony, Muradnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, do hereby declare that my name has been wrongly recorded as Archana Goyal in some of my documents/records. My correct and legal name is Archana Goyal. Henceforth, I shall be known and called as Archana Goyal for all purposes.

I, Kanika Arora R/o Prateek Kumar R/o A-3/66 Paschim Vihar New Delhi-110063 have changed my name to Kanika Satija.

सार्वजनिक सूचना

इसके जरिए यह सूचना दी जाती है कि जसवीर सिंह, प्रॉपर्टी नंबर WZ-246, प्लॉट नंबर F-39, खसरा नंबर 799 और 380, शिव नगर, नई दिल्ली (जिसे आगे उक्त प्रॉपर्टी कहा जाएगा) के ग्राउंड फ्लोर के मालिक और कब्जादार होने का दावा करते हैं। जसवीर सिंह को यह प्रॉपर्टी नॉर्दर्न कोर और गुप्तचन सिंह की मृत्यु के बाद, 06.09.2023 (डॉक्यूमेंट नंबर 23243) और 27.08.2025 (डॉक्यूमेंट नंबर 2025/25/246536) की रिलीन-निकरमंड डीड (अधिकार छोड़ने का दस्तावेज) के जरिए मिली है। नॉर्दर्न कोर और गुप्तचन सिंह, 25.03.2000 (डॉक्यूमेंट नंबर 2846) की सेल डीड (डीडी नरसाराज) के जरिए इस प्रॉपर्टी के मालिक थे। जसवीर सिंह ने उक्त प्रॉपर्टी जमाप्रति वसूला को बेचने पर सहमति व्यक्त की है और जमाप्रति वसूला ने हमारे क्लॉस्ट आईडीएनसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, राउंज प्रेस बांध के पास ने मॉर्गज (मिगी) बनाने पर सहमति व्यक्त की है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त प्रॉपर्टी या उसके किसी हिस्से पर किसी, फिगर, ट्रस्ट, विरासत, विपणन (अधिकार) या किसी अन्य तरीके से कोई दावा है, तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस तरीके से 7 दिनों के भीतर नौचे दिए गए पते पर साहायक दस्तावेजी सुगुलों के साथ हमें लिखित रूप में सूचित करें। ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों (यदि कोई हो) को छोड़ा हुआ या त्याग दिया गया माना जाएगा और हमारा क्लॉस्ट लेनो देने और उसके संबंध में मॉर्गज बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

विशाल दीवान, अधिकारी
दीवान एंड कंपनी
हाउस नंबर 2 (एनजीए), एनआरएस कॉम्प्लेक्स,
ए.ई.-19, विशालदीवान@divanandcompany.com

PUBLIC NOTICE

Reg. Property No. 861, area measured 350 sq. yds., situated in Sector-14, Urban Estate Distt. Gurgaon; hereinafter referred to as the "said property".
NOTICE is hereby given to general public that our client, Mrs. Pinky Gupta (hereinafter referred to as the "owner") is absolute owner of the said property vide Sale Deed dated 23.10.2009 executed by Mr. Rahul Jain (self) and 1. Mr. Sachin Jain through GPA Mr. Arun Jain 2. Mrs. Shail Bala Jain through GPA Mr. Arun Jain, registered as Document no. 13069 in Addl. Book No. 1, Vol. No. 11163/904 on pages 29-30 registered on 23.10.2009, SRO - Gurgaon. The said owner has informed that Original Sale Deed dated 23.10.2009 registered as Document No. 13069 is the title documents in her favour and also forming part of chain documents, is hereinafter called the "said document", is having been lost/misplaced and is not traceable. A FIR to this effect has also been lodged with Sector-14, Gurugram Police Station, vide application No. 13227/2025/200659.
If the aforesaid original document (the said document) or any one of them is found or has been found by any person, the same may be returned and delivered to the undersigned at the address mentioned herein below. Further, if any person, body, institution is having any claim and/or objection in respect of the said property, he/they may raise his/ their objections, in writing, with documentary evidence, by Registered Ad Post, to the undersigned at the address mentioned herein below within 07 days of publication of this notice. Otherwise, after expiry of 07 days from the date of publication of this notice, no objection shall be acceptable.
General Public may also take note that any deal or transaction done by anybody on the basis of the said document or any of the said document shall be illegal and not binding on our clients. The person doing so shall be liable to be prosecuted under the law.
SHIVKANT ARORA, ADVOCATE
FOR MIS INTELLECTIVE LAW OFFICES
A-74, LOWER GROUND FLOOR,
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Plot No 66 Sector 34 EHTP, Gurgaon, Haryana-122001
CIN No. L17100HR1983PLC033460, Phone : 011-2628237, Email :teamunited83@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2026

Sr. No.	Particulars	(Rupees in Lakhs)			
		Quarter ended		Year ended	
		30/06/2026	31/03/2026	30/06/2025	31/03/2026
		Un Audited	Audited	Un Audited	Audited
1	Income from Operations	107.71	137.05	143.45	714.14
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(14.24)	3.47	0.73	17.29
3	Net Profit before tax for the period (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(14.24)	3.47	0.73	7.21
4	Net Profit for the period after tax and Exceptional and/or Extraordinary Items	(14.24)	(0.80)	(0.35)	2.95
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	134.82	(0.80)	(0.35)	2.95
6	Equity Shares Capital (Face value Rs.10/- Per equity share)	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earnings Per Share (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted	(0.47)	(0.03)	(0.61)	0.10

Notes:

- This extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website : www.bseindia.com The same is also available on the company's Website : www.ullimited.com
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 14th August, 2026.
- The Company has no subsidiary/associate/Joint Venture Company(ies).
- The Operations of the company are considered as a single business product. Segment reporting is not applicable.



For UNITED LEASING AND INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
ASHISH KHANNA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01251582

RADICO KHAITAN FINANCE LIMITED

Regd. Address: 4A, 4th Floor, Masoodpur Dairy Farms, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

Telephone No.: 011-71859609

Email: admin@radicoindia.com, Website: www.radicoindia.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

S. No.	PARTICULARS	(Rs. in Lakhs)					
		STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended
		30.06.2026	30.06.2025	31.03.2026	30.06.2026	30.06.2025	31.03.2026
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations	99.09	172.29	1,909.44	3,485.20	99.09	1,909.44
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(309.03)	132.99	33.29	72.54	(309.03)	132.99
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Share of Profit/(Loss) from Associates & Taxes)	(309.03)	132.99	33.29	72.54	(309.03)	132.99
4	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(309.03)	137.53	33.29	77.08	(309.03)	137.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	(95.65)	(129.42)	370.43	(250.58)	(108.08)	368.06
6	Equity Share Capital	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				423.98		410.82
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each)						
a) Basic		3.43	1.53	0.37	0.86	(3.48)	1.77
b) Diluted		3.43	1.53	0.37	0.86	(3.48)	1.77

NOTES

- The above Standalone & consolidated unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th Aug, 2026.
- The Company has adopted Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ('the Act') read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 01, 2019.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.mse.in and on Company's website www.Radicoindia.com.

By Order of the Board
for Radico Khaitan Finance Ltd.
Sd/-
Krishan Kumar Sharma
(Director)
DIN: 00856406

Place : New Delhi
Date : 14th August, 2026

Amit Kumar, Advocate
Narang & Associates
D-28, Jangpura Extension,
New Delhi-110014.

लेंसकार्ट की पहल दृष्टि की दौड़: आगे बढ़ेगा बेहतर विजन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन

नई दिल्ली। लेंसकार्ट 15 और 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के दौरान अपने वर्चुअल रन इवेंट दृष्टि की दौड़ रन फॉर विजन का आयोजन कर रहा है। इस दौरान, जो भी यूजर लेंसकार्ट ऐप पर कम से कम 20,000 कदम पूरे करेगा, कंपनी उसकी तरफ से चार जोड़ी तक चरमे दान करेगी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान रोजमर्रा की फिटनेस को सामाजिक प्रभाव के एक सामूहिक प्रयास में बदलने के लिए भारतीयों को एक साथ लाता है, क्योंकि आज भी कई लोगों के लिए विजन केयर की सुविधा पहुंच से बाहर है। देश में लगभग 35 करोड़ से अधिक भारतीय विजन केयर का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यह सारा डोनेशन लेंसकार्ट की गैर-लाभकारी शाखा लेंसकार्ट फाउंडेशन के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल पर लेंसकार्ट के सईओ और फाउंडर पीपूष बंसल ने कहा भारत में आई-केयर के भविष्य के लिए जागरूकता बढ़ाना और इसकी पहुंच को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। लेंसकार्ट

फाउंडेशन के जरिए हमारा लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर किसी को आँखों की अच्छी देखभाल मिल सके। दृष्टि की दौड़ हमारी इसी सोच को आगे बढ़ाता है, जो रोजमर्रा की एक आदत को एक सामूहिक योगदान में बदल रहा है। हमें उम्मीद है कि देशभर के लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे और यह दिखाएंगे कि जब सब मिलकर प्रयास करते हैं, तो बड़े पैमाने पर एक सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।

हिंदुस्तान ऑटो फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन: L65910DL1980PLC010617

ई-मेल: hindaf1980@gmail.com, वेबसाइट: www.hindaf.in

पंजीकृत कार्यालय: केबिन नंबर डीए-8, 02वीं मंजिल, विकास मार्ग, शक्रपुर, नई दिल्ली-110092

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरिचित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त तिमाही 30.06.2025
		अलेखापरिचित	लेखपरिचित	अलेखापरिचित
1	परिचालनों से कुल आय	—	1.32	—
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-6.12	1.42	-6.20
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से बाद)	-6.12	1.42	-6.20
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों से बाद)	-6.12	0.90	-6.20
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु) (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-6.12	0.90	-6.20
6	इक्विटी शेयर पूंजी	350.28	350.28	350.28
7	आरक्षित निधि(यों) (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	—	-102.05	—
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये) (निरंतर और वंश परिवर्तनलों के लिए)			
क) मूल		-0.17	0.03	-0.18
ख) तल		-0.17	0.03	-0.18

टिप्पणी:

- उपरोक्त संख्या (सूचीबद्धता दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) वित्तियम, 2015 के वित्तियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (<https://www.hindaf.in/investor-deck/financial-statements/>) और स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध है।
- 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों लेखापरिचित की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और उसके बाद 14 अगस्त, 2026 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड में लिया गया। कंपनी के सांख्यिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समिति समीक्षा की है और उन्होंने एक अग्रोय रिपोर्ट जारी की है।



मैसर्स हिंदुस्तान ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
सुभाष सपरा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00241940

दिनांक: 14.08.2026
स्थान: नई दिल्ली

HIMALAYA FOOD INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 118, 1st Floor, 12 Gagandeep Building, Rajendra Place, New Delhi-110008

Tel. +91 11 45108609, Fax: +91 1704 225178

E-mail id: cs@himalyainternational.com | www.himalayafoodcompany.com

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30TH, 2026

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended	
		30.06.2026	31.03.2026	30.06.2025	31.03.2026
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	879	844	1039	3985
2.	Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	104	-316	259	293
3.	Net Profit for the period before Tax (after exceptional items)	104	-316	259	293
4.	Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)	104	-239	259	370
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	104	-239	259	370
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	8479	8479	5787	8479
7.	Earnings Per Share i) Basic in Rs. ii) Diluted in Rs.	0.12 0.12	-0.28 -0.28	0.45 0.45	0.44 0.44

Notes:

- The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2026.
- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial results for the Quarter ended June 30th, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited Financial results for the Quarter ended June 30th, 2026 is available on BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company website (www.himalayafoodcompany.com).

For and on behalf of the Board

Sd/-

Man Mohan Malik
Managing Director



Date: 14.08.2026
Place: New Delhi
(DIN: 00696077)

RLF LIMITED

Regd. Office: 14 Kms, Pataudi Road, Village Jhurd Sarai Veeran, Gurugram, Haryana, 122016
CIN NO.: L74999HR1979PLC032747, Phone : 011-49075251, Email : compliance@rlfntd.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2026

(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			
		30/06/2026	31/03/2026	30/06/2025	31/03/2026
		Audited	Audited	Un Audited	Audited
1	Income from Operations	3.32	8.36	12.40	49.31
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2.70	(24.14)	(0.89)	(31.60)
3	Net Profit before tax for the period (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2.70	(24.14)	(0.89)	(31.60)
4	Net Profit for the period after tax and Exceptional and/or Extraordinary Items	2.70	(24.14)	(0.89)	(31.60)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	881.75	(24.14)	(0.89)	(31.60)
6	Equity Shares Capital (Face value Rs.10/- Per equity share)	964.35	964.35	980.17	964.35
7	Earnings Per Share (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted	0.03	(0.25)	(0.01)	(0.33)
		0.03	(0.24)	(0.01)	(0.32)

Notes:

- This extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website :